



दिल्ली पब्लिक स्कूल गांधीनगर

प्रार्थना सभा २०१९-२०२०

विषय: हिंदी दिवस पर प्रार्थना सभा

दिनांक : ०९ / ०९ / २०१९

स्थान: ऐट्रियम

कक्षा : ०४ एच

**गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है
कहते - सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है।**

दिनांक ९ सितम्बर २०१९ की सुबह ९:३० बजे दिल्ली पब्लिक स्कूल गांधीनगर के प्रांगण में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया जिसमें कक्षा ०४ एच के विद्यार्थियों द्वारा हिंदी दिवस मनाया गया।

प्रार्थना सभा के सफल सूचक कोम्पेअरिंग का कार्यभार कक्षा ०४ एच की छात्रा कुमारी प्रियल द्वारा किया गया। मंच प्रस्तुति का प्रारंभ प्रार्थना के साथ किया गया। तत्पश्चात हिंदी दिवस पर सुविचार प्रस्तुत किया गया। इसी श्रंखला को आगे बढ़ाते हुए गीत के माध्यम से 'हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा' स्वरलहरी गुंजायमान हुई। हिंदी भाषा पर विचार, कविता और नुक्कड़ नाटक आदि पेश किया जिससे प्रार्थना सभा और खिल उठी।

सौंधी सुगंध ,मिठी सी भाषा

गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा

हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य:-

- छात्रों को उनकी समझ का प्रदर्शन करने के लिए एक जगह प्रदान करना था।
- भारत को राष्ट्रभाषा का दर्जा कैसे मिला और क्यों मिला इस पर ज्ञान प्रदान करना।
- शिक्षा के साथ-साथ खुशियाँ प्रदान करना।

यह बच्चों के लिए एक अच्छा आत्मविश्वास निर्माण अभ्यास था और इसका आनंद लिया गया। हिंदी भाषा के प्रति बच्चों की लगन और रुचि देखकर उन्हें मुख्य अध्यापक, राकेश कुमार भगत द्वारा बधाई दी गई जिससे उनकी खुशी का ठिकाना न रहा तथा अन्य छात्रों से भाषा में रुचि लेने तथा शुद्ध भाषा का उपयोग करने पर बल दिया गया। इसके अलावा प्रधानाचार्य, अतनु रथ द्वारा श्रेष्ठ सदन एवम श्रेष्ठ कक्षा की भी ट्राफी दी गई। सदन में प्रथम माही, दूसरा साबरमती तथा तीसरा नर्मदा को स्थान दिया गया। कक्षा में पहली में अ और एफ विभाग को दूसरी में अ,सी और डी विभाग को तीसरी में सी और एफ विभाग को चौथी में एच विभाग को और पांचवी में जी विभाग को ट्राफी दी गई। कर्णप्रिय राष्ट्रगान के साथ विशेष हिंदी दिवस प्रार्थना सभा संपन्न हुई।

हिंदी को आगे बढ़ाना है ,

उन्नति की राह पर ले जाना है ,

केवल इक दिन नहीं हमको ,

नित दिन हिंदी दिवस मानना है।

प्रार्थना सभा के कुछ चित्र :



Hindi Diwas - Std. 4 - H

-DPSG